



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र 1945 (श०)

(सं० पटना 297) पटना, सोमवार, 10 अप्रैल 2023

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

10 अप्रैल 2023

सं० 11/नियमावली 01-02/2023-743—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के “परन्तुक” के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—

- (क) यह नियमावली “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023” कही जायेगी।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (ग) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो —

- (i) “सरकार” से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (ii) “प्रशासी विभाग” से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
- (iii) “विद्यालय” से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे ;
- (iv) “प्राथमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है ;
- (v) “मध्य विद्यालय” से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 01 से 8 अथवा कक्षा 06 से 08 तक की पढ़ाई होती है ;
- (vi) “प्रारंभिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 अथवा 06 से 08 अथवा 01 से 05 तक की पढ़ाई होती है ;
- (vii) “माध्यमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा—10 तक की पढ़ाई होती है;

- (viii) "उच्च माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय/ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है;
- (ix) "जिला परिषद्" से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद् ;
- (x) "पंचायत समिति" से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति ;
- (xi) "ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत ;
- (xii) "नगर निकाय" से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था-नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;
- (xiii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक का संवर्ग ;
- (xiv) "नियुक्त प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ;
- (xv) "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो;
- (xvi) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ;
- (xvii) "विद्यालय अध्यापक" से अभिप्रेत है –
- (क) इस नियमावली के अधीन कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक ;
- (ख) इस नियमावली के अधीन कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक ;
- (ग) इस नियमावली के अधीन कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक ;
- (घ) इस नियमावली के अधीन कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक ;
- (xviii) "विशेष विद्यालय अध्यापक" से अभिप्रेत है-माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक;
- (xix) "प्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) एवं बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सेवाशर्त नियमावली 1983 (यथा संशोधित 2006) के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक /प्राचार्य अथवा बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक-स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अथवा "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित)" के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक ;
- (xx) "प्रधान शिक्षक" से अभिप्रेत है, "बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2021" के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक ;
- (xxi) "पूर्व से नियुक्त पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक" से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति,

स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक

- (xxii) "शिक्षकेतर कर्मी" से अभिप्रेत है—राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;
- (xxiii) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;
- (xxiv) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;
- (xxv) "पात्रता परीक्षा" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार एवं/अथवा केन्द्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत आच्छादित संवर्ग/ संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा ;
- (xxvi) "शिक्षक प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डी०एल०एड०/बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की उपाधि या 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड०-एम०एड० की उपाधि या बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की 04 वर्षीय डिग्री या 04 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य अथवा वैसे राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी०एल०एड० /बी०एड०/ बी०पी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की उपाधि। साथ ही, समय- समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अर्हता ;

स्पष्टीकरण:— शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

- (xxvii) "आयोग" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन संवर्ग/संवर्गों में नियुक्ति की अनुशंसा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई आयोग ;

3. **संवर्ग का गठन।**—शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग-अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा।

4. **विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे।**

5. **विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी।—**

- (i) भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
- (ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा।
- (iii) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

- (iv) विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

- (v) **आयु I**—प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट देय होगी।

परंतु पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा।

6. आरक्षण I—

- (i) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
परन्तु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिह्नित किया जायेगा।
- (ii) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जायेगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग-अलग संधारण जिला स्तर पर किया जायेगा।
- (iii) विद्यालय अध्यापक का आरक्षण-समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (iv) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिन्दु 01 से रोस्टर प्रारंभ होगा।

7. नियुक्ति की प्रक्रिया I—

- (i) शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।
- (ii) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक-अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा।
- (iii) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।
- (iv) परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा।
- (v) उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।
- (vi) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।
- (vii) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।
- (viii) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक की यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

8. पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम-7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकतानुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा।

9. **प्रमाण पत्रों की जाँच ।—**

- (i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे। परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है।
- (ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

10. **परिवीक्षा अवधि ।—**

- (i) सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से दो वर्षों के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवामुक्त कर सकेगा।
- (ii) परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि ।—**परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जाँच होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

12. **वरीयता सूची ।—**

- (i) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग-अलग होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी।
- (ii) विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी।

13. **स्थानान्तरण ।—**

- (i) विद्यालय अध्यापक का पद स्थानान्तरणीय होगा।
- (ii) मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं प्रशासी विभाग द्वारा स्थानान्तरण के निमित्त समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा।
- (iii) विद्यालय अध्यापक का अन्तर जिला स्थानान्तरण ऐच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक, प्राथमिक शिक्षा होंगे। वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे। अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानान्तरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता स्थानान्तरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी।

14. **अनुशासनिक कार्रवाई ।—** बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा।

15. **सेवा संबंधी शर्तें ।—**

- (i) विद्यालय अध्यापक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।
- (ii) विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- (iii) अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगीं।

16. **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।—**इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जा सकेगा।

17. आचरण संहिता I—

- (i) निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना/कराना।
- (ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना।
- (iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना।
- (iv) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।
- (v) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।
- (vi) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।
- (vii) विद्यालय अध्यापक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे।

18. शिकायत एवं अपील I— इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी।

19. प्रकीर्ण I—

- (i) बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति इस नियमावली से शासित संवर्गों में उनकी नियुक्ति के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त इस नियमावली के अन्य प्रावधान के तहत कोई दावा नहीं कर सकेंगे।
- (ii) उपर्युक्त उप-कंडिका (i) में वर्णित नियमावली के अन्तर्गत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत, कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
- (iii) जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, जिसे मरणशील संवर्ग पूर्व में घोषित किया जा चुका है, पर यह नियमावली प्रभावी नहीं माना जायेगा।
- (iv) प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

Education Department

Notification
10th April 2023

No. 11/Rule-01-02/2023-743— In exercise of the powers conferred under *Proviso* to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, hereby makes the following Rules for appointment and service conditions for the post of School Teacher in Primary, Middle, Secondary, Senior Secondary, Upgraded Senior Secondary & Newly Established Senior Secondary Schools :-

1. Short Title, Extent and Commencement.—

- (a) These Rules shall be called "Bihar State School Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2023".
- (b) It shall extend all over the State of Bihar.
- (c) It shall come into force from the date of publication in Gazette.

2. Definitions: *In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or context-*

- (i) **"Government"** means the Bihar Government;
- (ii) **"Administrative Department"** means the Education Department;
- (iii) **"School"** means Government, Nationalized, Project Girls and Government Basic School managed and controlled by the Bihar Government which shall also include all Upgraded / Newly Established Senior Secondary School;
- (iv) **"Primary School"** means that School in which teaching from class 1 to 5 is done;
- (v) **"Middle School"** means that School in which teaching from class 1 to 8 or class 6 to 8 is done;
- (vi) **"Elementary School"** means that School in which teaching from class 1 to 8 or class 6 to 8 or class 1 to 5 is done;
- (vii) **"Secondary School"** means Government / Nationalized / Project Girls Senior Secondary School / Newly Established Secondary School / Upgraded Secondary School in which teaching up to class 10 is done;
- (viii) **"Senior Secondary School"** means Government / Nationalized / Project Girls Senior Secondary School / Newly Established Senior Secondary School / Upgraded Senior Secondary School in which teaching up to class 12 is done;
- (ix) **"Zila Parishad"** means *Zila Parishad* constituted under the Bihar Panchayat Raj Act, 2006;
- (x) **"Panchayat Samiti"** means *Panchayat Samiti* constituted under the Bihar Panchayat Raj Act, 2006;
- (xi) **"Gram Panchayat"** means *Gram Panchayat* constituted under the Bihar Panchayat Raj Act, 2006;
- (xii) **"Nagar Nikay"** means autonomous institutions – *Nagar Nigam, Nagar Parishad and Nagar Panchayat* for urban areas constituted under the Bihar Municipal Act, 2007;
- (xiii) **"Cadre"** means cadre of School Teacher at District level under these Rules;
- (xiv) **"Appointing Authority"** means District Education Officer of the concerned district;

- (xv) **"Disciplinary Authority"** means the authority competent for appointment;
- (xvi) **"Appellate Authority"** means Regional Deputy Director of Education of the concerned Division;
- (xvii) **"School Teacher"** means
- (a) School teacher of Basic grade appointed under these Rules for teaching from class 1 to 5;
 - (b) School teacher of Graduate grade appointed under these Rules for teaching from class 6 to 8;
 - (c) School teacher appointed under these Rules for teaching from class 9 to 10;
 - (d) School teacher appointed under these Rules for teaching from class 11 to 12;
- (xviii) **"Special School Teacher"** means teacher appointed under these rules for providing academic support to Children With Special Needs in the Secondary/Senior Secondary/Elementary Schools;
- (xix) **"Headmaster"** means Headmaster / Principal appointed in Senior Secondary School under Bihar State Senior Secondary School Headmaster (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2021, Bihar Education Service Rules, 2014 (as amended) and Bihar Nationalized Secondary School Conditions of Service Rules, 1983 (as amended in 2006) or Headmaster working in Middle School under the provisions of Bihar Nationalized Primary School Teacher – Transfer, Disciplinary Proceedings and Promotion Rules, 2018 or Headmaster working in Upgraded Senior Secondary / Newly Established Senior Secondary School under the provisions of Bihar State Senior Secondary School Headmaster (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2021 (as amended from time to time);
- (xx) **"Head Teacher"** means Head Teacher to be appointed under the Bihar Nationalized Primary School Head Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2021;
- (xxi) **"Teacher earlier appointed under the Panchayati Raj institution and Nagar Nikay institution"** means teacher appointed under the Bihar Zila Parishad Secondary and Senior Secondary Teacher (Appointment and Service Conditions) Rules, 2006 (as amended from time to time), Bihar Zila Parishad Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020, Bihar Nagar Nikay Secondary and Senior Secondary Teacher (Appointment and Service Conditions) Rules, 2006 (as amended from time to time), Bihar Nagar Nikay Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020, Bihar Panchayat Elementary Teacher (Appointment and Service Conditions) Rules, 2012 (as amended from time to time), Bihar Panchayat Elementary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020, Bihar Nagar Elementary School (Appointment and Service Conditions) Rules, 2012 (as amended from time to time) and Bihar

- Nagar Elementary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020;
- (xxii) **"Non-teaching staff"** means staff working in the Schools of State Government who are not engaged in teaching works;
- (xxiii) **"University"** means University constituted under Act or University recognized by the University Grants Commission;
- (xxiv) **"National Council for Teacher Education"** means Council specified at the National level for regulating the Teaching and Training Arrangements;
- (xxv) **"Eligibility Test"** means Eligibility Test organized by designated agency of Bihar Government and / or Central Government for cadre / cadres covered under these Rules;
- (xxvi) **"Teacher's Training"** means degree of D. L. Ed. / B. Ed. / B. A. Ed. / B. Sc. Ed. from any training institution recognized either by Central or any State Government before the enforcement of National Council for Teacher Education Act, 1993 or 03 years unified degree of B. Ed.-M. Ed. or 04 years degree of B. A. Ed. / B. Sc. Ed. or 04 years Graduation in Elementary Education (B. L. Ed.) or Graduation of at least one year in Physical Education (B. P. Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education or its equivalent or degree of D. L. Ed. / B. Ed / B. P. Ed. / B. A. Ed / B. Sc. Ed. degree from any training institution recognized by such State / Union Territory where National Council for Teacher Education Act, 1993 is not enforced. Along with this, Teacher Training qualification as determined by the National Council for Teacher Education from time to time.

Explanation: The decision of the Department in consultation with the National Council for Teacher Education shall be final in case of any dispute on the point of validity of any Teacher Training degree or on the point of equivalence of any particular degree.

- (xxvii) **"Commission"** means any Commission authorized by the State Government for recommendation for appointment to the cadre / cadres under these Rules;

3. Constitution of Cadre.—There shall be a cadre for School Teacher to be appointed in Government, Government Basic School, Nationalized and Project Girls School under the control of Education Department. There shall be different subject-wise cadres for school teachers, in Basic grade for Primary and Middle Schools, Graduate grade for Middle Schools, for Secondary Schools and Senior Secondary Schools. These cadres shall be of District level.

4. All posts of School Teacher shall be filled by direct appointment.

5. Essential Qualification for appointment to the post of School Teacher shall be as follows-

- (i) Should be a Citizen of India and a permanent resident of Bihar State.
- (ii) Should possess Educational and Training qualification for appointment to the post of School teacher as determined by the National Council for Teacher Education from time to time. Qualification for Special School Teacher shall be applicable as per Rehabilitation Council of India.
- (iii) Qualified in Teachers Eligibility Test conducted by the State Government / Central Government from time to time.

However, qualifying Teachers Eligibility Test shall not be mandatory for teachers appointed and working from prior to 2012 who have qualified Proficiency Test.

- (iv) The Department shall determine special qualifications for particular subject from time to time separately.
- (v) **Age.**—The minimum age for appointment as School teacher in Primary and Middle School shall be minimum 18 years on 1st of August of the appointing year and the maximum age for each category shall be the same as notified by the State Government (General Administration Department) from time to time. Similarly, the minimum age for appointment as School teacher in Secondary and Senior Secondary School shall be minimum 21 years on 1st of August of the appointing year and the maximum age for each category shall be the same as notified by the State Government (General Administration Department) from time to time. Relaxation of 10 years in the upper age limit in the first transaction of appointment after the enactment of these Rules shall be provided to such trained candidates who have qualified the Teachers Eligibility Test prior to enactment of these Rules. Relaxation of 10 years in the upper age limit in the first transaction of appointment shall be provided to the Teachers Eligibility Test qualified trained candidates in such subject or subject-group in which Teachers Eligibility Test have not been conducted, prior to enactment of these Rules.

Provided that the State government may take separate decision for relaxation in the upper age limit for teachers appointed and working under the Panchayati Raj institution and Nagar Nikay institution.

6. **Reservation.**—

- (i) The provisions for reservation in direct appointment under the state Government, as implemented by the General Administration Department shall be applicable.
Provided that, female candidates shall be appointed on minimum 50% posts of School teacher in Basic grade and Graduate grade of Primary and Middle School in each subject. In case of odd number of seats, the last shall be marked for female candidate.
- (ii) Subject-wise reservation roaster for Basic and Graduate grade School teacher for Primary and Middle School shall be maintained in consolidated form at District level. Similarly, Subject-wise reservation roaster for School teacher for Secondary and Senior Secondary shall be maintained separately at District level.
- (iii) The roaster clearance for School teacher shall be carried out by the District Magistrate.
- (iv) The roaster shall start from reservation point 01 for appointment to the post of School teacher in the first transaction after the commencement of these Rules.

7. **Process of Appointment.**—

- (i) After calculation of the vacant seats along with roaster clearance at the district level, the reservation category wise requisition shall be sent to the Commission for direct appointment to the post of School teacher, by the Education Department.

- (ii) The Commission shall advertise the number of vacant posts in relation to the requisition received for direct appointment. The candidature of the teacher-candidate shall be evaluated on the basis of the self declaration by the candidate in relation to qualification in the application form advertised by the Commission.
- (iii) Syllabus for examination shall be determined by the Commission in consultation with the Administrative Department. As per the determined syllabus, the Commission shall conduct examination, set question paper, evaluate the answer sheets and publish the results.
- (iv) The Commission shall determine the pattern of the examination for which it may consult and take advice with the Department as per requirement.
- (v) The discretion to fix cut-off marks for the examination shall vest with the Commission.
- (vi) Any candidate can appear, maximum three times, at an examination conducted under these rules.
- (vii) Appointment shall be done in accordance with the recommendation on the basis of the examination conducted by the Commission.
- (viii) The recommendation of the Commission shall not provide the right to be appointed unless the Administrative Department after the verification of necessary certificates is satisfied that the candidate is appropriate for appointment to the post of School teacher from all aspects.

8. The teachers appointed and working under Panchayati Raj institution and Nagar Nikay institution shall be eligible to participate in the appointment process mentioned in Rule 7 for appointment in this cadre. The processes as required in this regard may be determined separately by the State Government.

9. Verification of Certificates.—

- (i) It shall be the duty of the Appointing Authority that they shall get the Educational / Training qualification and experience related certificates and other certificates verified, as necessary, before issuing the Appointment letter. However, provisional appointment letter may be issued, in the interest of work and the certificates may be verified within time limit fixed by the department.
- (ii) In case the certificate is found to be forged or incorrect, the appointment shall be cancelled and recovery of the amount paid under the head of salary etc. shall be done under the provisions of Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 and also other appropriate legal action shall be taken.

10. Probation Period.—

- (i) The probation period for school teachers appointed by direct recruitment shall be two years from the date of contribution. In case the Probation period is found to be not satisfactory, the probation period may be extended for one year. If the service is found to be not satisfactory even in the extended period, then the Appointing Authority may discharge such School teacher after giving him an opportunity of being heard.

- (ii) The School teacher shall successfully complete the institutional and other training prescribed by the Department during the Probation period. The Calendar and Syllabus of the training shall be determined by the Department separately.

11. Confirmation.—Confirmation in service shall be done after satisfactory completion of Probation period, successful completion of training and verification of Educational / Training certificates etc.

12. Seniority list.—

- (i) There shall be subject-wise consolidated seniority list of school teachers of Primary and Middle School. The subject-wise seniority list of school teachers of Secondary and Senior Secondary Schools shall be separate. The *inter se* seniority shall be in accordance with the principles laid down by the General Administrative Department.
- (ii) The seniority list of school teachers shall be maintained at District level.

13. Transfer.—

- (i) The post of School teacher shall be transferable.
- (ii) The process of transfer shall be done by the concerned Appointing Authority on the concerned cadre post in the light of the guidelines issued from time to time for transfer by the Cabinet Secretariat Department and the Administrative Department.
- (iii) Inter-district transfer of School teacher may be done from voluntary / administrative / educational point of view. For this, the Competent Authority in respect of Primary and Middle School shall be Director, Primary Education. The Competent Authority in respect of Secondary and Senior Secondary Schools shall be Director, Secondary Education. As a result of the inter-district transfer, the seniority of the concerned transferred School teacher shall be determined as lower in the subject-wise seniority of the school teacher related to the year of his appointment in the transferred district.

14. Disciplinary Proceeding.—The provisions contained in the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable to the School teacher appointed under these Rules.

15. Conditions of Service.—

- (i) The pay-scale etc. for the post of School teacher shall be determined by the State Government.
- (ii) The cadre strength of different cadres of School teachers shall be the same as determined by the Government from time to time.
- (iii) Other service conditions may be prescribed by the State Government.

16. Appointment on Compassionate ground.—Separate provisions in relation to appointment on compassionate ground of dependents of such School teacher appointed under these Rules whose death occurs during the period of service may be notified.

17. Code of Conduct.—

- (i) Completion of the syllabus as prescribed in easy and accessible manner.
- (ii) Attend school on time and conduct classes as per the prescribed routine.
- (iii) Not to allow harassment of children mentally or physically and ensuring protection of child rights.
- (iv) Not to consume any type of toxic substances.
- (v) Play an active role in eradicating social evils especially child marriage and dowry.

- (vi) To follow the directions issued from time to time by the Bihar School Examination Board for successful conduct of yearly Secondary examination and Senior Secondary examination.
- (vii) The provisions contained in Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 (as amended from time to time) shall be applicable to School teacher.

18. Complaints and Appeal.—The Regional Deputy Director of Education shall be empowered to decide after hearing Complaints / Appeals in relation to appointment under these Rules and Appeals in matters related to service conditions of School teachers working under these Rules.

19. Miscellaneous.—

- (i) Persons appointed under Bihar Zila Parishad Secondary and Senior Secondary Teacher (Appointment and Service Conditions) Rules, 2006 (as amended from time to time), Bihar Zila Parishad Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020, Bihar Nagar Nikay Secondary and Senior Secondary Teacher (Appointment and Service Conditions) Rules, 2006 (as amended from time to time), Bihar Nagar Nikay Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020, Bihar Panchayat Elementary School (Appointment and Service Conditions) Rules, 2012 (as amended from time to time), Bihar Panchayat Primary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020, Bihar Nagar Elementary Teacher (Appointment and Service Conditions) Rules, 2012 (as amended from time to time) and Bihar Nagar Elementary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 shall not be eligible to make any claim under any provision of these Rules except for the specific provisions made for their appointment in the cadres governed by the State Government under these Rules.
- (ii) No new appointment can be made, after the date of enactment of these Rules, under the Rules specified in Sub-Para (i) above.
- (iii) These Rules shall not be applicable to Assistant teacher of district cadre and Assistant teacher of Divisional cadre which have been declared as *moribund* cadre earlier.
- (iv) The Administrative Department may clarify any provision of these Rules and remove difficulty arising in its implementation.

By Order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 297-571+3000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>